

Date: 04.08.2021

To, The Listing Department Bombay Stock Exchange, Mumbai Phirozeleejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code:531334

Sub: COPIES OF BOARD MEETING NOTICE PUBLISHED IN NEWSPAPERS

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are attaching herewith scanned copies of the below mentioned newspapers in which we have published Notice of the Company's Board Meeting for considerating Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30.06.2021 for the aforesaid year of our Company :-

Lucknow
Lucknow Lucknow
LUCKHOW

Please take the aforesaid on records.

Thanking You,

or Vikalp Securities Limited

Kejriwal Managing Director DIN: 00687890

Regd. Office: 25/38, Karachi Khana, Kanpur - 208 001 Uttar Pradesh

CIN : L65993UP1986PLC007727; Contact No. : 0512-2372665

MAXPLUS LOGISTICS LIMITED

MC-STITCH LIMITED)

Regd. Office : 1, Community Centre,

East of Kailash, New Delhi-110 065

email: sanjeev.chandra@gmail.com

website: www.maxpluslogisticslimited.com

Tel. No.: 011-49057869

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and

Disclosure Requirement) Regulations, 2015,

Notice is hereby given that a Meeting of Board

of Directors of the Company is scheduled to

be held on Saturday, 14th August, 2021 at the

Registered Office to inter alia approve and

take on record the Un Audited Financial

Results for the Quarter ended 30th June, 2021

alongwith Limited Review Report thereon.

The Notice is also available on the Stock

Exchanges website www.msei.in and

For Maxplus Logistics Limite

Sanjeev Chandra

Director and CEC

www.maxpluslogisticslimited.com.

Company's website

Place : New Delhi

Date : 02.08.2021

CIN: L65999DL1985PLC022321

FINANCIAL EXPRESS

VIKALP SECURITIES LIMITED Regd. Office: 25/38, KARACHI KHANA, KANPUR, UTTAR PRADESH - 20800 CIN-L65993UP1986PLC007727, Contact No: 0512-2372665 Email id : vikalpsecuritieslimited@gmail.com

Website: www.vikalpsecurities.com NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the Regulation 47(1)(a) read with Regulation 33 and Regulation 29 of SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, a meeting of Board of Directors of Vikalp Securities Limited will be held on Friday 13th August, 2021 at 01:00 P.M. at the Registered Office of the Company at 25/38, Karachi Khana, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001 inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th of June, 2021. The said information is also available on the website of the Company www.vikalpsecurities.com and on the website of Bombay Stock Exchange Limited www.bseindia.com. For Vikalp Securities Limited

Date: 03rd August, 2021 Place: Kanpur

Arun Kejriwal **Managing Director** DIN: 00687890

पंजाब नैशनल बैंक 🌎 punjab national bank

General Services Administration Division Head Office, Plot No 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 hogad@pnb.co.in; hoinsurance@pnb.co.in

NOTICE FOR SUBMISSION OF BIDS FOR RENEWAL OF GROUP PERSONAL ACCIDENT INSURANCE POLICY FOR SALARY/PENSION ACCOUNT HOLDERS OF

DEFENCE PERSONNEL PUNJAB NATIONAL BANK invites sealed bids for Renewal of GROUP PERSONAL ACCIDENT INSURANCE POLICY FOR SALARY PENSION ACCOUNT HOLDERS OF DEFENCE PERSONNEL from

the registered General Insurance Companies of India. For detailed information please visit our website https://www. pnbindia.in/Tender.aspx

Interested General Insurance Companies may submit their bids to the Chief Manager, Punjab National Bank, General Services Administration Division, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka. New Delhi -110075 on or before 24 AUGUST, 2021 latest by 11:00 AM. Any corrigendum /Extension of date/ clarification in respect of the above shall be released only at our website https://www.pnbindia.in which may be visited regularly by the intending bidders.

03.08.20221

Chief Manager (011-28044751)

K M SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office: 11-Moti Bhavan, Collector Ganj, Kanpur-208001(U.P.)

Corp. Office: 76-Eldeco Green, Gomti Nagar, Lucknow-2260101(U.P.)

CIN No.: L15421UP1971PLC003492, Website: www.kmsugar.com E-mail:- kmsugar@gmail.com Phone : 0512-2310762, 0522-4079561 NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29, 33 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 10th day of August, 2021 at 11.00 hrs (A.M.) at Hotel Taj, Gomti Nagar, Lucknow, to consider and approve the

. The Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2021; Declaration of Interim Dividend for the Financial Year 2021-2022 and to fix Record

date for the same; inter-alia any other matter Further, pursuant to clause 4 of Schedule B of code of conduct SEBI (Prohibition of insider trading) Regulations, 2015, Trading Window has been closed for the Directors Promoters, officers and designated Employees of the Company from 01st July, 2021 till 48 hours after the declaration of financial Results of the Company for the quarte

ended 30th June i.e. 12th August, 2021 for dealing in the securities of the Company. The said notice may be assessed on the Company's Website at www.kmsugar.com and also on Stock Exchanges website at www.bse.india.com and www.nseindia.com included Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarte Ended 30th June, 2021 after approval of the Board.

By order of the Board For K M Sugar Mills Ltd Pooja Dua Place: Lucknow Company Secretary Dated: 02nd August, 2021

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI

BANK STREET BRANCH, Bank Street Branch, 2631, Bank Street, Karol Bagh, New Delhi -110005, Ph.: 28751871

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Appendix-IV [Rule-8(1)] Whereas the undersigned being the authorized officer of the Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 05.04.2021 calling upon the borrower M/s Sterling Tube Co. and Guarantors Mr. Sachin Aggarwal and Mrs. Shruti Aggarwal to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 2,99,71,505.09 (Rupee Two Crore Ninety Nine Lakh Seventy One Thousand Five Hundred Five and Nine Paisa only) with further interest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 31st day of July of the Year 2021.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India for an amount Rs.2,99,71,505.09 (Rupee Two Crore Ninety Nine Lakh Seventy One Thousand Five Hundred Five and Nine Paisa only) and interest expenses and other charges etc. thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY All that part and parcel of immoveable property situated at P-1, P-2, P-3, out of

Khasra No 1178/1118, Village- Jhilmil Tahirpur, "Masco Estate", Old Seemapuri, Delhi-110095 in the name of Mr. Sachin Aggarwal. Area - 492.51 Sq. Mtr. Bounded: On the North by Open Area, On the South by 20' Wide Road,

On the East by Other Property, On the West by Other Property.'

Place: New Delhi Date: 31.07.2021

Form INC-26

(Raman Goyal) Chief Manager Authorized Officer: Bank of India

[Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

> BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT Regional Director, Norther Region, New Delhi

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Quovantis Technologies Private Limited having its registered office at J-103, RBI Colony, Paschim Vihar, New Delhi 110063, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government, under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on July 14, 2021 to enable the Company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Karnataka".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, B-2 wing 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, Delhi, within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Ramesh Narayan Emani Quovantis Technologies Private Limited J-103, RBI Colony Paschim Vihar New Delhi 110063 New Delhi

financialexp.epapr.in

QUOVANTIS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED Ramesh Narayan Emani Director DIN: 02081595

For and on behalf of

Place: New Delhi Date: 28-7-2021 DR. FRESH ASSETS LTD CIN-L74899DL1990PLC042302

Regd. Off.: B-1/E-24, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110 044

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 14th August, 2021 at the Registered Office to inter alia approve and take on record the Un Audited Financia Results for the Quarter ended 30th June. 2021, alongwith Limited Review Report

The Notice is also available on the Stock Exchanges website www.msei.in and

website Company's www.drfreshassets.com For Dr Fresh Assets Ltd.

Sd/-

SOUTH WESTERN RAILWAY

The undersigned on behalf of the President of India, invites E-Open Tenders

TENDER NOTICE No. 16/2021 Dated 29/07/2021

Description in Brief (E-Open Tenders)

Measuring and Monitoring relay

Gasket top header to pipe flange

Industrial oxygen gas for cutting and

पंजाब नेशनल बेंक

For details log on: www.ireps.gov.in

Date: 02.08.2021 Vijay Prakash Pathak Place: Delhi Whole Time Director DIN: 07081958

43211030

30211018

30211115

17211306

9 17211389

through IREPS only for supply of following items

POH Kit

30211348 OH Kit for C3W type

welding

interest thereon until payment in full:

Bandhu Gupta Road

Date: 30.07.2021

Place: New Delhi

Mr. Ratish Kumar Singh

Prospect No. 813305 & 823834)

Mr. Ajay Juneja, Ajay Trading Co. Mr. Anu Juneja, Mr. Raj Kumar Juneja, Mrs. Ritu

Juneja (Prospect No. 744298)

Prospect No. IL10012542)

Mr. Yash Kumar Singl

Mrs. Asha Singh,

Mr. Vinay Kumar

Mr. Harendra Malik.

Mr. Yasveer Singh Mr. Pooja Rajput (Prospect No. 739205 & 737991

Mrs.Renuka,

SI

No.

Mrs. Puja Pawa

PUB/134/AASP/PRB/SWR/2021-22

65215003C Liquid Oxygen Gas Plant

65215004 Oxygen Generation Plant 1000 LPM

Silent Block for anchor link

Seal kit for sander magnet

TINNA TRADE LIMITED Regd. off.: No. 6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030

Tel.: 011-49518530 Fax: 011-26804883 -mail: investor.ttl@tinna.in, www.tinnatrade.in CIN: L511000L2009PLC186397

NOTICE Notice is hereby given in terms of Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 13th August, 2021, at the Registered Office of the company, inter-alia, to consider and approve the Standalone & consolidated Unaudited Financial results of the Company for First Quarter ended on 30th June, 2021. The information contained in this notice is also

available on Company's website at www.tinnatrade.in and also on the website of Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com

Monika Gupta Place: New Delhi Date: 3.8.2021

Company Secretary

Tender closing Time: 14:00 Hrs

01 Nos

783 Nos

1019 Set

01 Nos

Principal Chief Materials Manager, Hubballi

13(4) of the said act, read with Rule 8 of the said Rules on this 30 day of July ,2021.

adjoining 208 sq. yards ground floor in the name of Mr. Vijay Bansal and Mrs. Manju Bansal.

DEMAND NOTICE

with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India India Infoline Housing

Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the

respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice ishereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days

from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4)

of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to

Authorised Officer at **Branch Office:-**Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom,Mot

Nagar, New Delhi / Or Branch Office:- A-1C & A-1D, 2nd floor, Noida Sec16, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301 / Or Corporate Office: IIFL

Particulars

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance

Earnings Per Share (of ₹ 10 /- each) not annualised

at their respective meetings held on 03rd August, 2021.

(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income

Thousand Three Hundred Eighty One Only)

Thousand Nine Hundred Forty One Only)

Three Thousand Four Hundred Sixty Only)

(Prospect No. 920139 & 797148) Sixty Eight Thousand Eight Hundred Seventy Nine Only)

Tower, Plot No.98, Udyog Vihar, Phase-IV Gurugram, Haryana.

Total Revenue from Operations

Extraordinary items)

Extraordinary items)

Extraordinary items)

6 Equity Share Capital

Sheet of previous year

(after tax)]

Basic:

Notes:

Diluted:

extent applicable.

www.bslltd.com.

Place: Kolkata (W.B.)

Dated: 3rd August, 2021

Place: DELHI/ NOIDA Date: 04-08-2021

29-July-2021 Rs.7,73,460.00/- (Rupees Seven Lakh Seventy

29 July-2021 Prospect No.813305 Rs.8.66.976/- (Rupees All that piece and parcel of the property being: Flat No.

Eight Lakh Sixty Six Thousand Nine Hundred Seventy Six Only | Twinz-Sun-5-0701, area measuring 955 sq. ft., Plot No

Prospect No. 823834 Rs.10,01,381/- (Rupees Ten Lakh One Gh 01-B-1, Sector- Eta-2, Migsun Wynn, Greater Noide

29-July-2021 Rs.52,25,941/- (Rupees Fifty Two Lakh Twenty Five All that piece and parcel of the property being: Hous

30-July-2021 Prospect No. 920139 Rs. 2,36,393/- (Rupees Two All that piece and parcel of the property being: Ugf-

Lakh Thirty Six Thousand Three Hundred Ninety Three Only)
Rhs, admeasuring 51.09 Sq. mtr., Back Side, Mm-Prospect No.797148 Rs.19,68,879 /-(Rupees Nineteen Lakh 74, DIf, Ankur Vihar, Loni, Ghaziabad

One Thousand Nine Hundred Sixty Four Only) Prospect No. A110/1, 1st Floors, measuring 900 sq ft., Sec-5, Green

737991 Rs. 28,41,840.00/- (Rupees Twenty Eight Lakh Forty One Wood Enclave, Wave City, NH-24, Ghaziabad, Uttar Pradesh

28-July-2021 Prospect No. 739205 Rs. 51,964.00/- (Rupees Fifty) All that piece and parcel of the property being:

Tender

Due on

06.08.2021

09.08.202

12.08.2021

17.08.2021

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

CIRCLE SASTRA CENTRE EAST DELHI POCKET-"E", MAYUR VIHAR PHASE-II, DELHI-110091

POSSESSION NOTICE [rule8 (1)]

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Punjab National Bank, BO: CIRCLE SASTRA CENTRE EAST

DELHI under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (herein after

referred to as the "said Act") and in Exercise of Powers conferred under section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest

(Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 07.04.2021 calling upon the borrower M/s Om Prakash Fateh Chand & Sons

(A/C No. 00145011000318, 00147121000226 & 00147201000726) to repay the amount mentioned in the notice being Rs.

2,80,14,274.00/- (Rupees Two Crore Eighty Lacs Fourteen Thousand Two Hundred Seventy Four Only) (including interest upto

31.03.2021) with further interest thereon until payment in full, within 60 days from the date of receipt of the said notice, under section 13(2)

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor/ mortgagor and the public in general

that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him under Section

The borrower/ guarantor/ mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any

dealing with the said property will be subject of the charge of the Punjab National Bank for an amount of Rs. 2,80,14,274.00/- (Rupees

Two Crore Eighty Lacs Fourteen Thousand Two Hundred Seventy Four Only) (including interest upto 31.03.2021) with further

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY(IES);

Em of IP No. 8707 – 8710, Desh Bandhu Gupta Road, Paharganj, Delhi – 110055 measuring 246.50 sq. yards (entire building) and

DIRECTIONS: East: 8707 – 10 (Singh Empire), West: 8711 – 15 (Hotel Durga), North: Gali/ Other Property, South: Main Desh

Gautam Buddha Nagar, 201308, Uttar Pradesh

No-9/195 Ground Floor, area measuring 3266 sq.ft.

All that piece and parcel of the property being: Plot No

1095, area measuring 500 sq yrds., Sec-4, Urbai Estate, Gurgoan, Haryana, National Capital Region

Pincode: 201010, Uttar Pradesh, India

Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL)

BSL Limited

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021

1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company

2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed

3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33

CIN: L24302RJ1970PLC002266

Registered Office: 26, Industrial Area, Gandhi Nagar, Bhilwara - 311001 (Rajasthan)

• Tel.: (+91-1482) 249101, 245000 • Email: accounts@bslsuitings.com • Website: www.bslltd.com

under section 133 of the Companies Act, 2013 and other Indian Generally Accepted Accounting Practices and Policies to the

of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results

are available on the websites of Stock Exchange(s) at www.nseindia.com/ www.bseindia.com and the Company's website at

1000 Set 09.08.2021

11422 Nos | 13.08.2021

1766 Nos 25.08.2021

10500 Cum 30.08.202

548 Nos | 25.08.2021

FORTUNE INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED Regd. Office:- 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001

E-mail: firl.nbfc@gmail.com Website: www.firl.co.in CIN: L51503DL1986PLC024329

Obligation and Disclosure Requirements) regulation, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the company will be held on Tuesday, 10" August, 2021 interalia to consider and approve the standalone un-audited financial results of the Company for the Quarter ended 30" June, 2021. The information is also hosted on the Company's at www.firl.co.in and may also be accessed on the websites of the stock exchanges at www.msei.in. For Fortune Industrial Resources Limited

Date: 02.08.2021

Tel. No.: 011-43585000, Fax: 011-43585015

NOTICE Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing

Bharti Company Secretary cum Compliance Officer

"Form No. INC-25A" Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Northern Region n the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies Incorporation) Rules, 2014

n the matter M/s DAMAN PLYWOOD INDUSTRIES LIMITED. having its registered office at C/O Ram Saran, B-75, Kamla Nagar, New Delhi. Notice is hereby given to the general public that the

company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at Annual General Meeting held on 31st July, 2021, to enable the company to give effect for such Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by

registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director. B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: Complete address of registered office: C/O Ram Saran Das, B-75, Kamla Nagar, New Delhi. For and on behalf of the Applicant

Date: 04/08/2021 SITARAM MOHTA (Director DIN: 03485114

Place: New Delhi

SUPERIOR INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED Regd. Office:-25,Bazar Lane, Bengali Market, New-Delhi-110001 CIN: L15142DL1991PLC046469:

Tel. No.: 011-43585000, Fax: 011-43585015, E-mail: cs@superiorindustrial.in, Website: www.superiorindustrial.in NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, August 11",2021 inter alia to consider and approve the unaudited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the guarter ended 30" June, 2021 and other matters as per the agenda item.

The said notice is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the Company's securities are listed and shall also be available on the website of the Company (www.superiorindustrial.in). For Superior Industrial Enterprises Limited

punjab national bank

...the name you can BANK upon!

Date: 02.08.2021 Megha Rastogi Company Secretary and Compliance Officer

Authorized Officer

Punjab National Bank

ARAVALI SECURITIES AND

FINANCE LIMITED

CIN: L67120HR1980PLC039125

Office: Plot No. 136, 4th Floor, Rider House

Sector -44, Gurgaon, Haryana-122003

Ph. 0124-4556677

E-mail: info@aravalisecurities.com

Website: www.aravalisecurities.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to

Regulation 29, 33, 47 and any other regulation.

applicable, of the Securities and Exchange

Board of India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The meeting of the Board of Directors of

Aravali Securities and Finance Limited will be

held on Thursday, 12° day of August, 2021, at

3:00 p.m. at its Registered Office at Plot No.

136, Fourth Floor, Rider House, Sector-44

Gurgaon-122003 to inter alia, consider and

approve, the unaudited financial results of the

For Aravali Securities and Finance Limited

PROUD TO BE INDIAN

Ruchi Shrivastava

Company Secretary

(₹ in Lakhs)

Year Ended

32142

123

123

136

323

1029

6799

1.32

1.32

31.03.2021

Company for the quarter ended 30" June, 2021

Place: Gurgaon

Date: 03.08.2021

30.06.2020

4666

(612)

(612)

(587)

(548)

1029

(5.70)

(5.70)

By Order of the Board

(ARUN CHURIWAL)

for BSL LIMITED

CHAIRMAN

DIN: 00001718

Quarter Ended

9164

327

327

319

305

1029

3.10

3.10

31.03.2021

30.06.2021

8641

340

340

253

210

1029

2.46

2.46

Place: Sohna, Haryana

Date: 03.08.2021

Place : New Delhi

E-Auction - Concast Steel & Power Limited (in Liquidation) Sale of Assets under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Sale of Assets and Properties owned by Concast Steel & Power Limited (in iquidation) forming Part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed y the Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench vide order dated 26th September, 2018.

interested applicants may refer to the detailed EOI process document uploaded on website of the Corporate Debtor http://concastispat.com/nclt.html and also on E-Auction website https://ncltauction.auctiontiger.net

The Auction Sale will be done through the E-Auction platform (with unlimited extension of 15 min each) https://ncltauction.auctiontiger.net

Assets Lot	Manner of Sale	Inspection Date	Date and Time of Auction	EMD Amount & Submission deadline	Price
ksset .ot No.1 - Bankura Jnit	Standalone basis	Before 20 August 2021	23 August 2021 11:01 to 23 August 2021 18:00	INR 11 Cr on or before 19 August 2021	INR 110 Crores
ksset .ot No.3 - Srikakulam Jnit	Standalone basis	Before 20 August 2021	23 August 2021 11:01 to 23 August 2021 18:00	INR 6 Cr on or before 19 August 2021	INR 60 Crores

This is to inform the public at large, that the undersigned has withdrawn the Letter of Intent (LoI) issued to M/s UIC Infracon Private Limited (UICIPL) for Asset Lot#1 Bankura Unit (auction dated June 21, 2021) and their bid has been cancelled. For any query regarding E-Auction, Contact : Mr. Saptarshi Baidya / Mr. Nawnit Kumar

at +91 98360 70992/79035 75095 Email : LQ.Concast@in.gt.com. Please note, public notice for subsequent auctions (as applicable) will be published on http://concastispat.com/nclt.html and also on E-Auction website https://ncltauction.auctiontiger.net.

Kshitiz Chhawchharia Liquidator of Concast Steel & Power Limited (In Liquidation)

IBBI Regn No-IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616 Registered Address : C/o. B. Chhawchharia & Co.

8A & B, Satyam Tower, 3, Alipore Road, Kolkata-700027 Email: Kshitiz@bccoindia.com

RASANDIK

Place: Kolkata

Date : 04.08.2021

RASANDIK ENGINEERING INDUSTRIES INDIA LIMITED REGISTERED OFFICE: 14, ROJ-KA-MEO INDUSTRIAL AREA SOHNA, HARYANA - 122 103

CIN: L74210HR1984PLC032293, Website: www.rasandik.com NOTICE

Pursuant to the Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and all other applicable provisions, if any, we hereby inform you that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 13th August, 2021, amongst other businesses, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the first guarter ended June 30, 2021. The information contained in this notice is also available on the website of the Company

i.e., www.rasandik.com and the website of the Stock Exchange i.e., www.bseindia.com For Rasandik Engineering Industries India Limited

Date: August 3, 2021

Pradeep Chandra Nayak Company Secretary

M.L. Birmiwala

President-Finance & Secretary

HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED Regd. Office: 7th Floor, Kanchenjunga, 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Email: investors@hindusthan.co.in, website: www.hindusthanurban.com CIN No. L31300DL1959PLC003141, Phone No.: 011-23310001-05

Notice is hereby given that oursuant to provisions of Regulation 29 read with Regulation 47(1)(a) of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12" August, 2021 inter-alia to consider approve and take on record the Un-audited Financial Results (standalone and consolidated) of the Company for the first quarter ended 30° June, 2021. Further, we wish to inform you that in accordance with SEBI (Prohibition of Insider Trading)

Regulations, 2015, the trading window for dealing in the shares of the Company has been closed with effect from 1°July, 2021 till 14° August, 2021 (both days inclusive). This notice is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the shares o

the company are listed and on the website of the Company (www. hindusthanurban.com).

SHREE RAJASTHAN SYNTEX LTD.

Reg. Off.: 27-A, First Floor, Meera Nagar, Housing Board Colony, Udaipur, Raj-313001 Ph. (0294) 2440334; Email:cs@srsl.in; Website:www.srsl.in; CIN: L24302RJ1979PLC001948

NOTICE Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Board Meeting of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12th August, 2021 at 1.00

Raiasthan-313001, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2021. he information contained in this notice is available on the website of BSE Ltd. (www.bseindia.com) where Company's shares are listed and is also available on the

P.M. at Registered Office at 27-A, First Floor, Meera Nagar, Housing Board Colony, Udaipur,

website of the Company (www.srsl.in). For: Shree Rajasthan Syntex Ltd.

Prinkle Talesara

Company Secretary

Place : Udaipur Date : 03" August, 2021

BANK STREET BRANCH,

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Appendix-IV [Rule-8(1)]

Bank Street Branch, 2631, Bank Street, Karol Bagh, New Delhi -110005, Ph.: 28751871

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 05.04.2021 calling upon the borrower M/s Maya Impex and Guarantors Mrs. Sushma Rani, Ashish Aggarwal and Mrs. Aarti Aggarwal to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,81,11,180.20 (Rupee One Crore Eighty One Lakh Eleven Thousand One Hundred Eighty and Twenty Paisa only) with further interest, expenses and other

charges etc. thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 o Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 31st day of July of the Year 2021. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the

property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India for an amount Rs.1,74,72,520.06 (Rupee One Crore Seventy Four Lack Seventy Two Thousand Five Hundred Twenty and Six Paise Only) and interest expenses and other charges etc. thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of immoveable property situated at Flat No 109, Ground

Floor, Konark Apartments, Plot No. 22, Patparganj, IP Extension, Delhi-110092 in the name of Mrs. Aarti Aggarwal. Area - 122 Sq. Mtr. **Bounded:** On the North by Society Park, On the South by Open Area, On the East by Boundary Wall. On the West by Flat No 110."

Place: New Delhi (Raman Goyal) Chief Manage Date: 31.07.2021 Authorized Officer: Bank of India

BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED

Regd. Office: 607, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, New Delhi-110001

CIN: L65993DL1990PLC039397, Web: www.bervin.com, Email: secretary@bervin.com

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2021

Quarter Ended Year Ended **Particulars** 30.06.2021 30.06.2020 31.03.2021 Unaudited Unaudited Audited Total Income from Operations 506.54 600.74 456.24 Net Profit/(Loss) for the period before tax 414.94 (before Exceptional and/or Extraordinary items) 587.76 413.81 Net Profit/(Loss) for the period before tax 414.94 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 587.76 413.81 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 587.76 413.81 345.70 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)} 587.76 413.81 345.70 589.81 Equity Share Capital 589.81 589.81 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of 1.857.88 997.85 1,857.88 the previous year 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2021 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinued operations)

(2) Diluted NOTES:

(1) Basic

No Leasing Business has been undertaken during the quarter.

) The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on record and approved by Board of Directors at their meeting held on August 03, Figures for the guarter ended 30th June, 2020 and year ended 31st March 2021 have

been regrouped wherever necessary to make them comparable with figures of the current quarter ended 30th June 2021 4) As the Company is engaged in a single primary business segment, the disclosure requirement of Accounting Standard (AS-17) 'Segment Reporting' notified under

Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 are not applicable. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter ended 30th June, 2021 under Regulation 33 of the

SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the same is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) & Company's website (www.bervin.com)

For and on behalf of the Board of Directors

9.97

9.97

7.02

7.02

7.04

7.04

Date: 3rd August 2021

Place: New Delhi

S. K. Murgai (Director) DIN: 00040348

New Delhi

(अचल सम्पत्ति हेत्) रिकवरी डिपार्टमेंट-सर्किल ऑफिस, सेक्टर IV, मेल, हरिद्वार एतदद्वारा, अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, **पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी) में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए व प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियम 2002 के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निम्न वर्णित ऋणी / यों / बंधककर्ता / ओं को मांग सूचना पत्र निम्नवर्णित तिथियों को भेजे गए कि वे उक्त नोटिस / सों की प्राप्ति / नोटिस जारी करने की तिथि के 60 दिनों के भीतर सम्बन्धित मांग सूचना पत्र में दी गयी राशि का भूगतान कर दें। ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं द्वारा ऋण राशि का भूगतान न कर पाने के कारण सभी ऋणी / यों / बंधककर्ता / ओं और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सपठित नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित सम्पत्तियों का सांकेतिक/भौतिक कब्जा निम्नवर्णित तिथियों को ले लिया है। ऋणी / यों / बंधककर्ता / ओं को विशिष्टितः और सर्वसाधारण को सामान्यतः सर्तक (सावधान) किया जाता है कि वह निम्नलिखित सम्पत्तियों के साथ कोई लेन—देन न करें। जमान्ती आस्ति को Redeem कराने हेतु उपलब्ध समय सीमा के सम्बन्ध में ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं /गारन्टीकर्ता/ओं का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की आकर्षित किया जाता है। सम्पत्तियों से किया गया किसी भी प्रकार का लेन—देन पंजाब नैशनल बैंक के ऋण भार के निम्नलिखित वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज व अन्य खर्चे के अधीन होगा। चिपकाये गये मांग नोटिस के शाखा/ऋणी बंधक सम्पत्ति का विवरण कब्जा नोटिस अनुसार बकाया की तिथि के नाम की तिथि रकम सम्पत्ति नं0 1. औद्योगिक सम्पत्ति खसरा नं0 35, नया खसरा नं0 78 एवं 80, 29.04.2021 30.07.2021 शाखाः रायपुर, भगवानपुर, हरिद्वार 2,93,96,788.18 ऋणी: 1. मैसर्स वंसल इंडस्ट्रीज, रजिस्ट्रार ऑफिस: खसरा नं0 35 क्षेत्रफल 136.61 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम-शाहपुर, परगना भगवानपुर, तहसील-रूडकी, + ब्याज एवं अन्य नया खसरा नं0 78 एवं 80, ग्राम- शाहपुर परगना भगवानपुर- जिला- हरिद्वार। सब-रजिस्ट्रार ऑफिस रूड़की, वही नं0 1/1, जिल्द नं0 2659/ सर्चे 247661, प्रो0 श्री नवीन वंसल। 2. श्री नवीन वंसल पुत्र श्री राजैन्द्र 2896, पेज नं0 132/169 से 174, क्र0सं0 7894, दिनांक 06.12.2004 पर क्रा कुमार बंसल, निवासी: 17, मिल व्यू कॉलोनी पेपर मिल रोड, पंजीकत है। सम्पत्ति स्वामीः श्री नवीन बंसल। सहारनपुर, उ०प्र0- 247001, गारन्टरः 1, श्री राजेन्द्र बंसल निवासीः सम्पत्ति नं0 2. आवासीय खुला प्लॉट भूमि माप पूर्व- 46 फीट, पश्चिम- 46 फीट, 17, मिल व्यू कॉलोनी पेपर मिल रोड, सहारनपुर, उ०प्र0-247001, उत्तर- 41 फीट एवं दक्षिण- 41 फीट, कुल क्षेत्रफल 175.29 वर्ग मीटर। **सीमाएँ**: 2. श्रीमती सारिका बंसल, निवासी: 17, मिल व्य कॉलोनी पेपर मिल पुर्वः राजेन्द्र बंसल की सम्पत्ति, पश्चिमः सारिका बंसल की सम्पत्ति, उत्तरः 16 फीट रोड, सहारनपुर, उ०००- 247001 चौडा रास्ता, एवं दक्षिणः राजेन्द्र वंसल की सम्पत्ति, खसरा नं0 190/1, स्थित ग्राम- रामदासपुर उर्फ नंगला, परगना नंगला, तहसील- देवबंद, जिला- सहारनपुर। सब-रजिस्ट्रार ऑफिस देवबंद, वही नं0 1, जिल्द नं0 6203, पेज नं0 95-110, क्र0सं0 9921, दिनांक 24.11.2017 पर सम्पत्ति पंजीकत है। सम्पत्ति स्वामी श्रीमती सारिका बंसल। सम्पत्ति नं0 3. आवासीय खुला प्लॉट मुमि माप पूर्व- 46 फीट, पश्चिम- 46 फीट, उत्तर- 25 फीट एवं दक्षिण- 25 फीट, कुल क्षेत्रफल 107 वर्ग मीटर। सीमाएँ:-पूर्व: राजेन्द्र वंसल की सम्पत्ति, पश्चिम: सारिका बंसल की सम्पत्ति, उत्तरः 10 फीट चौडा रास्ता, एवं दक्षिणः राजेन्द्र बंसल की सम्पत्ति, खसरा नं0 190/1, स्थित ग्राम- रामदासपुर उर्फ नंगला, परगना नंगला, तहसील- देवबंद, जिला-सहारनपुर। सब-रजिस्ट्रार ऑफिस देवबंद, बही नं0 1, जिल्द नं0 6037, पेज नं0 313-332, क्र0सं0 4398, दिनांक 31.05.2017 पर सम्पत्ति पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी श्रीमती सारिका बंसल। सम्पत्ति नं0 4. आवासीय खुला प्लॉट भूमि माप पूर्व- 43 फीट, पश्चिम- 44 फीट, उल्लर- 36 फीट एवं दक्षिण- 36 फीट, कुल क्षेत्रफल 149.55 वर्ग मीटर। सीमाएँ:-पूर्व: सरदार जी का पेट्रोल पम्प, पश्चिमः सारिका बंसल की सम्पत्ति, उत्तरः मुकेश बंसल की सम्पत्ति एवं दक्षिणः 16 फीट चीडा रास्ता, खसरा नं0 190/1, स्थित ग्राम- रामदासपुर उर्फ नंगला, परगना नंगला, तहसील- देवबंद, जिला-सहारनपुर। सब-रजिस्ट्रार ऑफिस देवबंद, बही नं0 1, जिल्द नं0 6536, पेज नं0 177-194, क्र0सं0 9430, दिनांक 10.10.2018 पर सम्पत्ति पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी श्रीमती सारिका बंसल। एक आबासीय मकान उत्तर फेसिंग निर्मित प्लॉट नं0 20, जिसमें भूतल पर तीन 18.03.2021 30.07.2021 शाखाः रानीपुर मोड, हरिद्वार (ई-ओबीसी) 21,05,715.42 **ऋणीः 1.** मैसर्स गढ़वाल हैंडलुम कारपोरेशन, प्रो0 श्री नीरज कपूर, बेडरूम एक स्टोर, लेट्रिन, बाधरूम, किवन, गैरेज और सीढ़ियाँ, प्रथम तल पर चार + ब्याज एवं अन्य बिरला रोड, डरिडार, उल्तराखण्ड- 249401, 2. श्री नीरज कपूर बेडरूम, लैट्रिन, बाथरूम, स्टोर एवं खुली सीढ़ियाँ, कुल कवर्ड क्षेत्रफल 178.17 सांकेतिक खर्चे पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र कपूर, निवासी: कपूर निवास, बिरला रोड, (वर्ग मीटर) वकदरी 31.19 (वर्ग मीटर) एवं भूतल क्षेत्रफल 256.87 (वर्ग मीटर) कब्जा हरिद्वार- 249401, उत्तराखण्ड। **गारन्टर**: श्री संजय कपूर पुत्र स्व0 बकदरी 42.81 (वर्ग मीटर)। **सीमाएँ:**- पूर्वः कृष्ण लाल मुरारी लाल ट्रस्ट की सम्पत्ति, थी सुरेन्द्र कपूर, निवासी: कपूर निवास, विरला रोड, हरिद्वार- पश्चिम: 10 फीट चीडा रास्ता, उत्तर: विराल रोड, दक्षिण: नजूल की भूमि, स्थित बिरला रोड हरिद्वार, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला- हरिद्वार, नगर पालिका समिति हरिद्वार। विक्रेय विलेख बही नं0 1, जिल्द नं0 1800, पेज नं0 235 से 254, क्र0सं0 1320, दिनांक 07.03.2011, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस हरिद्वार पर पंजीकृत है। शाखाः बीएसएम कॉलेज चौक, रूडकी, हरिद्वार (ई-युबीआई) एक आवासीय खाली खुला प्लॉट, खाता नं0 00331 (वर्ष खतीनी 1417 से 1422 01.03.2021 30.07.2021 35,49,824/-फसली वर्ष के अनुसार), खसरा नं0 33, कुल क्षेत्रफल 0.0410 हैक्टेयर अर्थात **ऋणीः** मैसर्स श्री गुरू कृपा इंटरप्राइजेज, पताः ग्राम- ब्रह्मपुर, + ब्याज एवं अन्य खसरा नं0 33, आर आर सिनेमा के सामने, निकट नैशनल हाईवे- 410 (वर्ग मीटर), सीमाएँ:- पूर्व: 15 फीट चौडा आम रास्ता, पश्चिम: विशम्बर खर्चे 58, रूड़की हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247667, **बंबककर्ता/गारन्टरः 1.** सिंह की भूमि, उत्तरः श्री श्याम लाल की भूमि, जो कि अनजान व्यक्ति को वेचा श्रीमती ममता त्यांगी फली विरेन्द्र कुमार त्यांगी, निवासीः 1/147, जा चुका है, दक्षिणः श्री देशराज की भूमि, स्थित मौजा- ब्रह्मपुर, परगना एवं चावमंडी, रुड़की, उत्तराखण्ड- 247667, 2. श्री अमित त्यागी पुत्र त्तहसील- रूड़की, जिला- हरिद्वार। वास्वितक विक्रेय विलेख दिनांक 01.02.2014, विरेन्द्र कुमार त्यागी, निवासी: 65/1, चावमंडी, सड़की, उत्तराखण्ड-वहीं नं0 1, जिल्द नं0 2158, पेज नं0 157 से 172, क्र0सं0 943, दिनांक 247667, 3. श्रीमती ममता त्यागी पत्नी विरेन्द्र कुमार त्यागी, निवासी: 01.02.2014, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस रुड़की, श्रीमती ममता त्यांगी पत्नी श्री विरेन्द्र 65/1, वावमंडी, रूड़की, उत्तराखण्ड- 247667, **गारन्टर** कुमार त्यागी, निवासी: मकान नं0 65/1, मीहल्ला चावमंडी रूडकी परगना एवं विरेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र श्री तेजपाल सिंह, निवासी: 147, चावमंडी, तहसील- रुडकी, जिला- हरिद्वार के नाम पर पंजीकृत है। रुड़की, उत्तराखण्ड- 247667 एक आवासीय मकान भूमि माप क्षेत्रफल पूर्व- 32 फीट, पश्चिम- 32 फीट, उत्तर- 06.04.2021 30.07.2021 शाखाः हरिपुर खुर्द (ई–ओबीसी) 7,19,185.69 **ऋणी:** श्री इमरान खान पुत्र श्री नईम खान, निवासी: मीहल्ला मेहतन, 24 फीट, दक्षिण- 24 फीट, कुल क्षेत्रफल 768 वर्ग फीट (अर्थातु 71.38 वर्ग मीटर), ज्वालापुर, हरिडार- 249407, उत्तराखण्ड। गारन्टरः श्री रसीद पुत्र जिसमें निर्मित दो कमरे, लैट्रिन, बाधरूम, किचन सहि एवं सीड़ियाँ, कुल कवर्ड + ब्याज एवं अन्य सांकेतिक रिजवाने, निवासी: मकान नं0 155, पुवधोई, ज्वालापुर, हरिद्वार-क्षेत्रफल 352 वर्ग फीट, सीमाएँ:- पूर्व: 6.5 फीट चौड़ी सीढ़ियाँ, पश्चिम: श्री वाले क्रभा हसन की सम्पत्ति, उत्तरः श्रीमती मेहराज एवं श्री आजाद की सम्पत्ति, दक्षिणः (फीट बौड़ी सीड़ियाँ, स्थित मौडल्ला मैदानियाँ ज्वालापुर परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला- हरिद्वार, नगर निग हरिद्वार। विक्रय विलेख बही नं0 1, जिल्द नं0 1341, पेज नं0 77 से 102, क0सं0 5095, दिनांक 05,06,2013, सब-रजिस्टार हरिद्वार, निष्पादित श्रीमती हसीना पत्नी अली हसैन, श्री इमरान खान पुत्र नईम खान, निवासीः मीडल्ला मेहतन, ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला-हरिद्वार के नाम पर पंजीकृत है। एक आबासीय प्लॉट नं0 78एम एवं 79 एम, माप क्षेत्रफल पूर्व- 24 फीट, पश्चिम-09.04.2021 30.07.2021 शाखाः मायापर, हरिद्वार 15,61,261.00 ऋणी: श्री प्रदीप गुन्ता पुत्र श्री जय प्रकाश गुन्ता, निवासी: मकान नं0 24 फीट, उत्तर- 60 फीट एवं दक्षिण- 60 फीट, कल क्षेत्रफल 1440 (वर्ग फीट + ब्याज एवं अन्य 144, बिल्केश्वर कॉलोनी, हरिद्वार- 249401, उत्तराखण्ड। **बारन्टरः** अर्थात् 133.82 (वर्ग मीटर), खसरा नं0 766 मि. नगर निगम समिति हरिद्वार के खर्चे श्री रजनीश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुखन लाल, निवासीः 145 ए, अन्दर, स्थित खन्ना नगर ज्वालापुर, ग्राम- अहमदपु कदछ, परगना ज्वालापुर, कथ्या गली नं0 5, खन्ना नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार-249407, उत्तराखण्ड। तहसील एवं जिला- हरिद्वार। **सीमाएँ:**-पूर्व: सम्पत्ति नं0 85 एम एवं 84 एम, पश्चिम 15 फीट चौडा रास्ता. उत्तरः श्री आर0एस0 नेगी की सम्पत्ति नं0 78 एम एवं दक्षिणः श्री परमानन्द शर्मा की सम्पत्ति नं0 79एम। विक्रेय विलेख बही नं0 1, जिल्द नं0 1412 एवं पेज नं0 297 से 316, क0सं0 6818, दिनांक 26.07.2013 पर पंजीकत है। शाखाः जगजीतपुर, हरिद्वार (ई-ओबीसी) एक आवासीय मकान पश्चिम फेसिंग, भूमि माप पूर्व- 43 फीट, पश्चिम- 43 फीट, 18.03.2021 30.07.2021 **60** 14,00,096.65 ऋणी: 1. मैसर्स साई ट्रेडर्स, प्रो0 श्री विनित कुमार यादव पुत्र श्री वेद उत्तर- 12 फीट 9 इंच एवं दक्षिण- 12 फीट 9 इंच, जिसमें तीन कमरे, लैट्रिन, प्रकाश पादव. निवासी: निकट शिव मंदिर, पीठ बाजार, जगजीतपुर, बाधरूम, सिडियाँ, कुल कवर्ड क्षेत्रफल 548.28 (वर्ग फीट) अर्थातु 50.95 (वर्ग मीटर) ब्याज एवं अन्य सांकेतिक कब्जा खर्चे हरिद्वार- 249408, उत्तराखण्ड, 2. श्री विनित कुमार वादव पुत्र श्री नगर पालिका समिति हरिद्वार की सीम के अन्दर, स्थिति कृष्णा नगर कॉलोनी वेद प्रकाश यादव, निवासीः मकान नं0 58, जगजीतपुर, कनखल, कनखल परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला- हरिद्वार। सीमाएँ:- पूर्वः विनय कुमार हरिद्वार- 249408, उत्तराखण्ड। **गारन्टरः 1.** श्री अनिल अरोरा, टंडन का मकान, पश्चिमः चरणजीत गम्भीर का मकान, उत्तरः अन्य व्यक्ति का निवासीः 3, भगवंतपुरम, कनखल, हरिद्वार- 249408, उत्तराखण्ड मकान एवं दक्षिण: 15 फीट चौडा रास्ता, विक्रेय विलेख वही नं0 1, जिल्द नं0 1233 2. श्री वेद प्रकाश यादव, निवासी: मकान नं0 58, जगजीतपुर, पेज नं0 387 से 412, क्र0सं0 7917, दिनांक 31.10.2009 पर पंजीकृत है। कनखल, हरिद्वार- 249408, उत्तराखण्ड। एक भूमि एक खाली प्लॉट निर्मित एवं सुपरस्ट्रक्चर, खसरा नं0 170 एम का भाग, 01.03.2021 30.07.2021 शाखाः बीएसएम कॉलेज चौक, रूडकी, हरिद्वार 48,38,952.18 माप पूर्व- 16 फीट, पश्चिम- 15 फीट 2 इंच एवं उत्तर- 25 फीट 6 इंच एवं ऋणी: मैसर्स शिधवली ट्रेडिंग कम्पनी, प्रो0 श्री सुनील सैनी एव + ब्याज एवं अन्य थी राम शरण सिंह, पताः मकान नं0 25, ग्राम- शेरपुर, रूडकी, दक्षिण- 24 फीट 6 इंचन्न, कल माप क्षेत्रल 390.626 वर्ग फीट (अर्धात 36.30 वर्ग सांकेतिक हरिद्वार, उत्तराखण्ड। **गारन्टरः** श्री नीरा कुमार सिंघल पुत्र श्री मीटर), स्थित मीडल्ला चावमंडी से रामदयाल चीरहा से पुराना रेलवे रोड से वीएसएम कल्जा विशेश्वर दयाल सिंघल, निवासी: मकान नं0 57, संजय गांधी कॉलोनी, तिरहा. परगना एवं तहसील- रूडकी, जिला- हरिद्वार। **सीमाएँ**:- पूर्वः धनीराम का स्डकी, डरिद्यार। **बंधककर्ता**: श्रीमती राखी पत्नी मनोज कमार, पता 1: फ्रॉट, पश्चिम: कशल कमार का फ्रॉट, उत्तर: अमरीश कमार एवं दक्षिण: 16 फीट निवासीः मकान नं0 171, मकतूलपुरी रुड़की, परगना एवं तहसील-चीडा हरिद्वार रोड एवं दक्षिण: अन्य का प्लॉट एवं विक्रेय विलेख बही नं0 1, जिल्द रूडकी, हरिद्वार, उल्लराखण्ड। पता 2. मकान नं0 171. नेहरू नगर, नं0 2073, पेज नं0 27 से 38, क्र0सं0 3739, दिनांक 29.12.2012, सब-रजिस्ट्रार रूडकी परगना एवं तहसील- रूडकी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड। ऑफिस लडकी-1, हरिद्वार, श्रीमती राखी पत्नी श्री मनोज कमार के नाम पंजीकत है एक आवासीय प्लॉट नं0 1, खेता नं0 386, माप क्षेत्र पूर्व- 32.61 फीट, पश्चिमः 26.04.2021 30.07.2021 शाखाः अमतमलपुर बांग्ला, हरिद्वार 10.03.027.00 ऋणीः श्रीमती सुनीता पत्नी स्व0 श्री मोहन सिंह, निवासी: 9/1, 32.61 फीट, उलार- 56 फीट एवं दक्षिण- 56 फीट, कुल भूमि क्षेत्रफल 1826.16 + ब्याज एवं अन्य रोहल्की किशनपुर, बहादराबाद, हरिद्वार- 249402, उत्तराखण्ड। वर्ग मीटर अर्थात 169.71 वर्ग मीटर। सीमाएँ:- पूर्वः 16 फीट चीडा रास्ता, अन्य सांकेतिक खर्चे गारन्टरः श्री चन्द्र शेखर आजाद पुत्र श्री भंदर सिंह, निवासीः गली व्यक्ति की बड्ही भूमि, पश्चिमः अन्य व्यक्ति की भूमि, उत्तरः प्लॉट 2 एवं दक्षिणः कब्जा नं0 2, पीठ बाजार, बहादराबाद, हरिद्वार- 249402, उत्तराखण्ड। 9 मीटर चीडा रास्ता. खसरा नं0 9. स्थित रोडल्की किशनपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला- हरिद्वार। विक्रय विलेख बही नं0 1, जिल्द नं0 1848, पेज नं0 263 से 282, क0सं0 2562, दिनांक 28.04.2011 पर पंजीकृत है। सम्पत्ति नं0 1. औद्योगिक क्षेत्र खाता नं0 85, खसरा नं0 310, क्षेत्रफल 0.0841 26.04.2021 30.07.2021 9. शाखाः रूडकी, सिविल लाईन, हरिद्वार 1,94,81,986.20 ऋणीः 1. मैसर्स उल्तरांचल कंकीट प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार ऑफिसः हैक्टेयर अर्थातु 841 वर्ग मीटर, कल क्षेत्रफल 0.8805 हैक्टेयर स्थित ग्राम- रायपर + ब्याज एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्र, परगना भगवानपर, तहसील रूडकी, जिला- हरिद्वार, सब-रजिस्ट्रार एस-एसबी, विश्वास पार्क, द्वारिका, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110075, सांकेतिक खर्चे डायेक्टरः श्री श्याम मिलाल, श्रीमती स्तृति मिलाल। 2. मैसर्स ऑफिस रुडकी वही नं0 1. जिल्द नं0 269. पेज नं0 27-66, क्र0सं0 11682, दिनांक 9995 उत्तरांचल कंकीट प्राइवेट लिमिटेड, फैक्ट्री स्थित खाता नं0 85, खसरा 23.10.2007 पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी: मैससं उत्तरांचल कंकीट प्राइवेट तिमिटेड। नं0 310, ग्राम- रायपुर, औद्योगिक क्षेत्रफल, भगवानपुर, रूड़की-सम्पत्ति नं0 2. आवासीय खुला प्लॉट, भूमि माप पूर्व- 20 फीट, पश्चिम- 20 फीट, 247667, उत्तराखण्ड। 3. श्री श्याम मित्तल पुत्र श्री अरविन्द कुमार उत्तर- 59 फीट एवं दक्षिण- 58 फीट, कुल क्षेत्रफल 1170 वर्ग फीट अर्थात् मिलाल, निवासी: 76, हयदल कॉलोनी रोड, ब्लॉक डिवीजन ऑफिस 108.736 वर्ग मीटर। सीमाएँ:- पूर्वः 15 फीट बौडा रास्ता, पश्चिमः हयदल की के सामने, राम नगर रूडकी- 247667, उत्तराखण्ड। 4. श्रीमती सम्पत्ति, उत्तरः श्रीमती मिनाक्षी शर्मा पत्नी श्री रवि शर्मा का प्लॉट, दक्षिणः हयदल स्तुति मित्तल पुत्री श्री अरविन्द कुमार मित्तल, निवासी: 76, हयदल की सम्पत्ति। खसरा नं0 नया 148, स्थित ग्राम- सुनहरा, रूड़की परगना एवं कॉलोनी रोड, ब्लॉक डिवीजन ऑफिस के सामने, राम नगर रूडकी-247667, उत्तराखण्ड। **गारन्टरः** श्री अरविन्द कुमार मित्तल, निवासीः तहसील- भगवानपुर, जिला- हरिद्वार। सव-रजिस्ट्रार ऑफिस रूड़की वही नं0 : 76, हयदल कॉलोनी रोड, ब्लॉक डिवीजन ऑफिस के सामने, राम जिल्द नं0 1327, पेज नं0 97-120, क्र0सं0 2233, दिनांक 14.05.2018 पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी श्री श्याम मित्तल। नगर, रुडकी- 247667, उत्तराखण्ड। सम्पत्ति नं0 1. वंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व भखंड, प्लॉट नं0 11 एवं 26.04.2021 31.07.2021 0. शाखाः अमतमलपुर बांग्ला, हरिद्वार 45,26,751.61 **ऋणी**: श्री तहसीन पुत्र श्री यासीन, निवासी: दादुपुर, गोविन्दपुर, 12 एवं निर्मित एवं सुपरस्टुक्चर, भूमि माप पुर्व- 33.6 फीट, पश्चिम- 33.6 फीट बहादराबाद, हरिद्वार- 249402, उत्तराखण्ड। **गारन्टर:** श्री शाहीद अली उत्तर-40 फीट एवं दक्षिण- 40 फीट, कुल माप 1340 वर्ग फीट अर्थात् 124.53 + ब्याज एवं अन्य सांकेतिक पुत्र श्री युसुफ, निवासीः मकान नं0 81 के, बहादरबाद, हरिद्वार- वर्ग फीटर, खसरा नं0 65, नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर, भेल रानीपुर की खर्चे

चंजाब नैश्ननल बैंक e punjab national bank

एवं जिला- हरिद्वार, **सीमाएँ**:-पूर्वः प्लॉट नं0 16. पश्चिमः 28 फीट चौडा रास्ता, उत्तरः अन्य व्यक्ति की भूमि, एवं दक्षिण- प्लॉट नं0 13 एवं 12 का भाग, सम्पत्ति स्वामी श्री तहसीन पुत्र श्री यासीन। विक्रेय विलेख बही नं0 1, जिल्द नं0 3986, पेज नं0 183-204, क्र0 सं0 2560, दिनांक 22.05.2017 पर पंजीकृत है।

सीमा से बाहर, स्थित गंगा एन्यलेब, ग्राम- दादूपुर, गोविन्दपुर, परगना रूड़की, तहसील

सम्पत्ति नं0 2. वंधक आवासीय भूखंड एवं निर्मित एवं सुपरस्ट्रक्चर के सभी भाग, भूमि माप पूर्व- 22.5 फीट, पश्चिम- 20 फीट, उत्तर- 41.5 फीट एवं दक्षिण- 41.5 फीट, कुल क्षेत्रफल 881.87 वर्ग फीट अर्थातु 81.96 वर्ग मीटर, खसरा नं0 112एम, नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर से बाहर, भेल रानीपुर स्थित गंगा एन्क्लेव, ग्राम- दादपुर, गोविन्दपुर, परगना रूड़की, तहसील एवं जिला- हरिद्वार, सीमाएँ:- पूर्वः मुर्सलीम की भूमि, पश्चिमः 14 फीट चौडा रास्ता, उत्तरः अन्य व्यक्ति का प्लॉट एवं दक्षिणः मुर्सलीम की भूमि। सम्पत्ति स्वामी श्री तहसीन पुत्र श्री यासीन। विक्रेय विलेख नं0 1, जिल्द नं0 3381, पेज नं0 361-386, क्र0सं0 8067, दिनांक 08.12.2017 पर पंजीकृत है।

सम्पत्ति नं0 3. बंधक आवासीय प्लॉट के सभी भाग व भुखंड, प्लॉट नं0 11 एवं 12 एवं निर्मित एवं सुपरस्ट्रक्चर, भूमि माप पूर्व- 24 फीट, पश्चिम- 24 फीट, उत्तर- 42 फीट एवं दक्षिण-42 फीट, कल माप क्षेत्रफल 1008 वर्ग फीट अर्थात 93.68 वर्ग मीटर, खसरा नं0 112एम, नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर के बाहर, भेल रानीपुर स्थित गंगा एन्क्लेव, ग्राम- दादपुर, गोविन्दपुर, परगना रूडकी, तहसील एवं जिला7 हरिद्वार, सीमाएँ:- पूर्वः मुर्सलीम की भूमि, पश्चिमः 14 फीट चौडा रास्ता, उततरः अन्य व्यक्ति की भूमि एवं दक्षिणः तहसीन का प्लॉट। सम्पत्ति स्वामी श्री जावेद पुत्र श्री तहसीन। विक्रेय विलेख वही नं0 1, जिल्द नं0 4232, पेज नं0 73-94, क्र0सं0 7272, दिनांक 16.12.2017। सुधार विक्रेय विलेख वही नं0 1, जिल्द नं0 4520,

पेज नं0 93-110, क्र0सं0 5018, दिनांक 31.07.2018 पर पंजीकृत है।

सम्पत्ति कृषि भूमि खसरा नं0 455/1, भूमि माप 0.112 हैक्टेयर, खसरा नं0 28.04.2021 31.07.2021 शाखाः गुरुक्ल कांगरी, हरिद्वार 2,96,59,252.09 ऋणीः मैसर्स महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर (एक यूनिट एसएस टेक्नोप्रिंट 455/1, भूमि माप 0.006 हैक्टेयर, खसरा नं0 455/3 भूमि माप 0.126 प्राइवेट लिमिटेड), पार्टनर- 1. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, हैक्टेयर, खसरा नं0 455/4, भूमि माप 0.228 हैक्टेयर, खसरा नं0 455/5 ब्याज एवं अन्य सांकेतिक खर्चे 2. श्री सतीश कुमार पुत्र श्री कर्ता सिंह, पंजीकृत ऑफिस पता 1: क्रा भूमि माप 0.010 हैक्टेयर, खसरा नं0 455/11 भूमि माप 0.012 हैक्टेयर, 37 ए, पुराना कॉन्नीगत पैलेस, देहरादून- 248008, **पता 2**: खसरा खसरा नं0 455/12/1 भूमि माप 0.070 हैक्टेयर, खसरा नं0 455/12/2 भूमि नं0 455/23, ग्राम-भोगपर तक्सर रोड, हरिद्वार- 249404, पार्टनर: 1. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, मैसर्स महालक्ष्मी माप 0.098 हैक्टेयर, खसरा नं0 455/13 भूमि माप 0.373 हैक्टेयर, खसरा स्टोन क्रेशर (एक युनिट एसएस टेक्नोप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड), 22, नं0 455/14, भुमि माप 0.091 हैक्टेयर, खसरा नं0 455/15 भुमि माप वालसमंद हिसार, हरियाणा- 125007, 2. श्री सतीश कुमार पुत्र श्री 0.017 हैक्टेयर, खसरा नं0 455/16 भूमि माप 0.172 हैक्टेयर, खसरा नं0 कर्ता राम, मैसर्स महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर (एक यूनिट एसएस टेक्नोप्रिंट) 455/17 भूमि माप 0.121 हैक्टेयर, खसरा नं0 455/18 भूमि माप 0.036 प्राइवेट लिमिटेड), मन्धान नं0 200, वार्ड नं0 13, बरवाला, हिसार, हैक्टेयर, खसरा नं0 455/21 भूमि माप 0.144 हैक्टेयर, चक नं0 317, स्थित हरियाणा- 125121, गारन्टर: 1. श्री अमन कुमार पुत्र श्री बुजभान, मैससं महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर (एक यूनिट एसएस टेक्नोप्रिंट प्राइवेट एस0एस0 टेक्नोप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड, 37 ए, पुराना कान्नीगत पैलेस, देहरादुन, लिमिटेड), पता-682/1, जे0पी0 कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा-124001, 2. श्री राजेन्द्र सुर पुत्र श्री बलदेव सिंह, मैसर्स महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर डायेक्टर: श्री सतीश कुमार पुत्र श्री कर्ता राम एवं श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह (एक युनिट एसएस टेक्नोप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड), पता- अर्बन एस्टेट द्वितीय, हिसार, हरियाणा- 125001, 3. श्रीमती बीमला पत्नी श्री बुजभान, मैसर्स महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर (एक युनिट एसएस टेक्नोप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड), पताः 681/1, जे०पी० कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा-124001 एक पश्चिम फेसिंग निर्मित आवासीय मकान, प्लॉट नं0 86, भूमि माप पूर्व- 26.04.2021 31.07.2021 12. शाखाः अमतमलपुर बांग्ला, हरिद्वार 10,36,337.62 ऋणी: श्रीमती पूनम देवी पत्नी श्री प्रवीन कुमार, निवासी: ब्रह्मपुरी, 21.5 फीट, पश्चिम- 21.5 फीट, उत्तर- 30 फीट एवं दक्षिण- 30 फीट, कुल + ब्याज एवं अन्य ग्राम- रावली महंदूद, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला- हरिद्वार-क्षेत्रफल 645 वर्ग फीट अर्थात 53.01 वर्ग मीटर, सीमाए:- पूर्वः प्लॉट नं0 94

एवं अन्य व्यक्ति, पश्चिमः 25 फीट चौडा रास्ता, उत्तरः श्री अशोक का प्लॉट,

दक्षिणः प्लॉट नं0 84, खसरा नं0 1618, ग्राम- सलेमपुर महदूद, परगना रूड़की,

तहसील एवं जिला-हरिद्वार। विक्रेय विलेख वही नं0 1, जिल्द नं0 3141, पेज

नं0 201 से 218, क्र0 सं0 3569, दिनांक 12.06.2017 पर पंजीकृत है।

स्थान – हरिद्वार

विकल्प सेक्युरिटीस लिमिटेड

कब्जा सूचना

पंजीकृत कार्यालयः 25/38, कराची खाना, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001 सीआइएन: L65993UP1986PLC007727, टेलिफोन: 0512-2372665 ई-मेलः vikalpsecuritieslimited@gmail.com

वेबसाइटः www.vikalpsecurities.com सूचना

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 (1) (a), विनियमन 33 तथा विनियमन 29 के अनसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निर्देशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 13 अगस्त, 2021 को कंपनी के पंजीकत कार्यालय 25/38, कराची खाना, कानपर, उत्तर प्रदेश-208001 में होगी जिसमें, अन्य विषयों के अतिरिक्त, 30 जून, 2021 को समाप्त हुई तिमाही की अवधि के कंपनी के गैर लेखा परीक्षित वित्तीय नतीजों पर विचार किया जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। संबंधित सूचना कंपनी की वेबसाईट www.vikalpsecurities.com तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

विकल्प सेक्यरिटीस लिमिटेड के लिए हस्ता./ अरुण केजरीवाल स्थानः कानपर दिनांकः 03 अगस्त, 2021 प्रबंध निर्देशक DIN (डिन): 00687890

सूचना

हम व्यक्तिगत कारणों से उ०प्र० रेरा में पंजीकृत परियोजना

LOTUS COURT PHASE 2 (संख्या UPRERAPRI4925), BBD

GREEN CITY को सरेन्डर / कैन्सिलेशन / निरस्तीकरण करा

किसी व्यक्ति / संस्था आदि द्वारा इस परियोजना में यदि कोई

बुकिंग करायी गई हो तो कृपया अपना क्लेम / दावा प्रस्तुत

करें। उक्त क्लेम /दावा को विवरण सहित 15 दिनों के अन्दर

यूपी रेरा की ईमेल आईडी contactuprera@up-rera.in पर

भी भेजा जाए तथा क्लेम/दावा विवरण को सचिव उ०प्र० रेरा

मुख्यालय, नवीन भवन, राज्य भवन नियोजन संस्थान,

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ- 226007 को

Viraj Constructions Pvt. Ltd., BBD Viraj Towers, Vibhuti Khand, Shaheed Path,

JINDAL CAPITAL LTD.

Regd. Office: 201, Aggarwal Plaza, Sector-9, Rohini, Delhi 110085

Tel: 011-46027146; CIN: L65910DL1994PLC059720

Email: info@iindalcapital.in. Website: https://iindalcapital.co.in/

The Twenty-Seventh Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through

Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Saturday, 28th August,

2021 at 11:00 a.m., without physical presence of the Members at a common venue, in

compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules

made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular

No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020,

Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 22/2020 dated 15th June, 2020,

Circular No. 33 dated 28th September, 2020, Circular No. 39/2020 dated 31st December

2020 and Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 and other applicable circulars

issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as

"relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members

will be able to attend the AGM only through VC/OAVM. Members participating through the

VC/OAVM facility shall be reckneed for the purpose of quorum under Section 103 of the

Notice is also given pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements

Regulations, 2015 and in terms of applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules

made there under, that the Registrar of Members and Share Transfer Books shall remain closed

from August 22nd, 2021 to August 28th, 2021 (both days inclusive) for the purpose of determining

The Notice of AGM and Annual Report have been sent in electronic mode only, to the members

whose e-mail addresses are registered with the Company /the Depository Participants. The

requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the

Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular. The electronic

dispatch of Annual Report to the members has been completed on 03rd August 2021. The

aforesaid Notice and Annual Report are available on the website of the Company i.e. https:

jindalcapital.co.in/ and on the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com.

The Notice of the Annual General Meeting as part of the 27th Annual Report of the Company

has been placed on the website of the Company viz. https://jindalcapital.co.in/ and is

forwarded to LIPL. In case of any grievances connected with E-voting, please contact

https://instavote.linkintime.co.in. For any difficulties, kindly contact the Secretarial

n terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made there

under and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the

Company provides all its members the facility of E- Voting at the ensuring Annual General

Meeting by electronic means for the business stated in the Notice of the Annual General

Meeting. The Shareholders are required log on to e-Voting system of LIIPL: https://

The E- voting period commences on 25th August, 2021, 9:00 A.M. and ends on 27th

The Shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized

form, as on the Cut-off date 21.08.2021, may cast their vote electronically. The voting right

shall be as per the number of equity shares held by the Members as on the Cut-off date

Department by letter or through email: info@jindalcapital.in.

the entitlement of members to cast vote in the forthcoming Annual General Meeting.

Gomti Nagar, Lucknow-226010. Tel.: 0522-6659500-502; Fax: 0522-6659503

रहे हैं।

प्रेषित किया जाय।

TINNA TRADE LIMITED Read. off.: No. 6. Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli,

New Delhi-110030 Tel.: 011-49518530 Fax: 011-26804883 E-mail: investor.ttl@tinna.in, www.tinnatrade.in

CIN: L51100DL2009PLC186397 NOTICE

Notice is hereby given in terms of Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 13th August, 2021, at the Registered Office of the company, inter-alia, to consider and approve the Standalone & consolidated Unaudited Financial results of the Company for First Quarter ended on 30th June, 2021.

The information contained in this notice is also available on Company's website at www.tinnatrade.in and also on the website of Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com

For Tinna Trade Limited Monika Gupta Place: New Delhi Company Secretary Date: 3.8.2021

डा. फ्रेश एसेट्स लिमिटेड

CIN: L74899DL1990PLC042302 पंजी. कार्यालय: बी-1/ई-24, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्टियल इस्टेट, मथरा रोड, नई दिल्ली-110044

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठिल विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किय जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठव शनिवार, 14 अगस्त, 2021 को पंजीकृत कार्यालय आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ उ पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 30 जून, 2021 व समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे। यह सचना स्टॉक एक्सचैंज की www.msei.in तथ

कम्पनी की वेबसाईट http://www.drfreshas sets.com पर उपलब्ध है। डा. फ्रेश एसेट्स लि. के लिए

तिथि: 2.8.2021 स्थानः दिल्ली

विजय प्रकाश पाठक पूर्णकालिक निदेशक DIN: 07081958

PEE CEE COSMA SOPE LTD.

Regd Office: G-10/8, Padam Deep, Sanjay Place, Agra-282002, Uttar Pradesh Tel.No. 0562-2527332, Fax.No. 0562-2527329, e-mail: pccosmalisting@doctorsoap.com

PUBLIC NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 11th August, 2021 at the Registered Office to inter alia approve and take on record the Un Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2021, along with Limited Review Report thereon and to fix the date of Annual General Meeting and Book Closure Dates for the purpose of payment of Dividend, subject to approval by members in the A.G.M. The Notice is also available on the Stock Exchanges website www.bseindia.com and company's website www.doctorsoap.com For & on behalf of the Board

Place: Agra Date : 04.08.2021

Place: New Delhi

(Executive Chairman) DIN:00112947 TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED

CIN-L74899DL2000PLC105817

Regd. & Corporate Office: D-174, GF, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020.

Tel.: 011-47351111 Fax.: 011-2622 9671 Website: www.tigerlogistics.in, Email.: tlogs@tigerlogistics.in

NOTICE OF THE BOARD MEETING

In accordance with applicable regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 notice is hereby given that a meeting of the board o directors of the company is scheduled on 09th August, 2021 to inter alia, consider, approve and take on record the following agenda items-To consider and approve quarterly financia results for the period ended June, 2021. To Consider and Approve the draft Director's Report, To Consider and fix the date, time and mode of forthcoming Annual Genera Meeting and approve the notice. To fix the date for Closure of Share Transfer Books and Register of Members., To Consider the Appointment of scrutinizer and NSDL for the purpose of E-Voting., To appoint the Agency/facilitator to offer Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual means ("OVAM") to shareholders for AGM purpose

The board may consider and approve other necessary resolutions as per agenda items This notice is being given in the compliance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

For Tiger Logistics (India) Limited

Harpreet Singh Malhotra

Managing Directo

(DIN-00147977

PEE CEE COSMA SOPE LIMITED

MAYANK JAIN

Date: 02.08.2021 यूनियन बैंक 🕼 Union Bank

मयूर विहार, फेज-। एक्सटेशन शाखा

कब्जा सूचना प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) (अचल सम्पत्ति हेत्)

हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **युनियन बैंक ऑफ इंडिया,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार और गारंटर्स (1) श्री शलभ शरण पुत्र श्री विजय शरण, निवासी फ्लैट नं. 475-डी, तुतीय तल, रीगल, शिप्रा सनसिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201010, यू.पी. (2) श्रीमती जागृति शरण पुत्री श्री विजय शरण, पलैट नं. 475-डी, तृतीय तल, रीगल, शिप्रा सनसिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद - 201010, उत्तर प्रदेश को एक मांग सूचना दिनांक 08.04.2021 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 4,93,778.33 (रु. चार लाख तिरान्वे हजार सात सौ अड्डहत्तर और पैसे तैतीस मात्र) और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित, उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति

भुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता और गारंटर्स उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता और गारंटर्स तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 02.08.2021 को ले लिया

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन युनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मयूर विहार, फेज-। एक्सटेंशन शाखा के प्रभार वास्ते उल्लेखित राशि रू 4,93,778.33 (रु. चार लाख तिरान्वे हजार सात सौ अड्डहत्तर और पैसे तैतीस मात्र) और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल / बंधक संपत्ति(यों) का विवरण

फ्लैट नं. 475—डी, तृतीय तल, रीगल, शिप्रा सनसिटी, वैभव खंड, इंदिरापुरम, जिला गाजियाबाद-201010, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 22.6 वर्ग मी.

दिनांक : 02.08.2021, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, युनियन बैंक ऑफ इंडिया

Place: Mumbai

Date: 03/08/2021

Place: Delhi

Date: 03.08.2021

August, 2021, 5:00 P.M.

SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED

For Jindal Capital Limited

Pawan Kumar Jindal

Managing Director

Corporate Identity Number (CIN): L65191TN1979PLC007874 Registered Office: Sri Towers, Plot No. 14A, South Phase, Industrial Estate, Guindy, Chennai – 600 032, Tamil Nadu, India, Tel: +91 44 4852 4666. Fax: +91 44 4852 5666.

Corporate Office: Wockhardt Towers, Level - 3, West Wing, C-2, G-Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Tel: +91 22 4095 9595 Fax: +91 22 4095 9597 Website: www.stfc.in Email: stfcricomp@stfc.in

RIGHTS ISSUE - AUGUST 2020 REMINDER - II

FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS WHOSE RIGHTS EQUITY SHARES ARE LYING IN "STFC RIGHTS ALLOTMENT DEMAT SUSPENSE ACCOUNT'

- 1. In terms of the Rights Issue of the Company vide Letter of Offer dated July 07, 2020 ("LOF"), the Company has kept in a separate demat account titled "STFC RIGHTS ALLOTMENT DEMAT SUSPENSE ACCOUNT the **Rights Equity Shares** allotted to the shareholders who did not intimate a valid demat account details to the Company till the date of allotment of Rights Equity Shares.
- 2. Such shareholders were required to send, within six (6) months from the Allotment Date of the Rights Equity Shares i.e. on or before February 05, 2021, a communication to the Company / KFin Technologies Private Limited, Registrar to the Rights Issue ("KfinTech"), containing the name(s), Indian address, e-mail address, contact details and details of their demat accounts along with copy of self attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by post, speed post, courier, electronic mail or hand delivery, for transfer of the Rights Equity Shares allotted to them to their respective demat accounts.
- 3. As per the LOF, the Company has sent reminder notices to such shareholders through emails and letters by way of speed post. However, some shareholders have still not provided the requisite demat account details as well as the other documents as mentioned above.
- 4. In the interest of such shareholders and considering the difficulties faced due to the COVID-19 pandemic conditions prevailing in the country, the Board of Directors in its meeting held on June 24,2021 has decided to grant extension of time upto December 31,2021 to such shareholders to submit their demat account details. In this regard, the Company had published an advertisement in this newspaper on April 01, 2021 besides intimating the concerned shareholders separate emails, for taking appropriate steps.
- 5. We observe that some shareholders have still not provided the requisite demat account details as well as the other documents as mentioned above. SUCH SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO NOTE THAT in case the above details, complete in all respects, are not received on or before December 31, 2021, such Rights Equity Shares lying to the credit of the "STFC RIGHTS ALLOTMENT DEMAT SUSPENSE ACCOUNT" shall be sold, as provided in the LOF, on the floor of the stock exchanges. The proceeds of such sale (net of brokerage, applicable taxes, administrative and incidental charges) shall be remitted to the bank account of the respective shareholders as per Terms of LOF (refer Page No.427) including Terms of the Issue or as per the details available with the Company or Registrar. In the event of any failure to update your records with the Company or Registrar or depository participants, the Company, Registrar or any other party shall not be liable for any losses suffered. Please note that any amounts that cannot be remitted back to the shareholders for any reason shall be dealt with in accordance with applicable law.

The concerned shareholders are requested to make note of the above and provide the requisite details immediately.

Shareholders may write to KFinTech at:- stfc.rights@kfintech.com or Integrated Registry Management Services

Private Limited at:- stfcrights@integratedindia.in and to the Company at:- stfcricomp@stfc.in for any further assistance/clarification in this matter.

SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED

sd/-**Vivek Achwal**

Company Secretary

🎱 वैभव ग्लोबल लिमिटेड पंजीकत कार्यालय : के-6बी, फतेह टीबा, आदर्श नगर जयप्र-302004, फोन : 91-141-2601020; र्भवस : 91-141-2605077: CIN: L36911RJ1989PLC004945 इं-मेल: investor_relations@vaibhavglobal.com;

वेबसाइट : www.vaibhavglobal.com

तदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों व इसके तहत बनाये गये नियमों एवं सेबी विनियमों के अनुसार सुचित किया जाता है कि कंपनी ने निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेत् घोषित अंतरिम लाभांश के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि शक्तवार, 6 अगस्त, 2021

नांट: यह प्रकाशन दिनांक 30 जलाई, 2021 के प्रकाशन द्वारा दी गई कते वैभव ग्लोबल लिपिटंड (कंपनी सचिव) स्थान : जयपर दिनांक : 29 जुलाई, 2021 FCS: 6535

यह सचना अंग्रेजी पारूप का रूपांतरण है। "फार्म नं. आईएनसी—26" (कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दसरे

राज्य में परिवर्तित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विद्यापन केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में

बायोफोरमिस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड CIN: U72100DL2017PTC325763 जिसका पंजीकृत कार्यालय : 8 / 2, तीसरा फ्लोर, वेस्ट

पटेल नगर, सेन्ट्रल दिल्ली, दिल्ली-110008, इंडिया मे स्थित है के मामले में प्राम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार उत्तरी क्षेत्रीय निदेशक के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से 'कर्नाटक राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 03 अगस्त, 2021 को

आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकयत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को चनके निम्नलिखित पंजीकृत

कार्यालय के पते पर भी भेजेगाः '8/2, तीसरा प्रलोर, वेस्ट पटेल नगर, सेन्ट्रल दिल्ली, दिल्ली-110008, इंडिया" कृते की ओर से बायोफोरमिस इंदिया प्रोईवेट लिमिटेड

गंगाधरणा बलेनहल्ली सिद्दलिगामुधि तिथि : 04.08.2021 स्थान : दिल्ली

सांकेतिक कब्जा

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

www.readwhere.com

दिनांकः 03.08.2021

249402, गारन्टर: श्री विजेन्द्र सिंह एव श्री राम सिंह, निवासी: ग्राम-

रावली महदूद, बहादराबाद, हरिद्वार- 249402, उत्तराखण्ड।